

श्री गिरीश शंकर (आईएएस) सचिव-राजभाषा, भारत सरकार की उपस्थिति में मुंबई (उपक्रम) नराकास की 56 वीं बैठक संपन्न

मुंबई (उपक्रम) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्ष एवं हमारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुश्री निशि वासुदेवा की अध्यक्षता में मुंबई स्थित सार्वजनिक उपक्रमों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 56वीं बैठक 17 दिसंबर, 2015 को गंगाधर देशमुख हॉल, आरसीएफ कॉलोनी, चेम्बूर, मुंबई में संपन्न हुई। बैठक में भारत सरकार के सचिव-राजभाषा, श्री गिरीश शंकर (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में आरसीएफ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.जी.राजन, एससीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुण कुमार गुप्ता, एमआरवीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रभात सहाय, रिचर्डसन एण्ड कृडास के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री पी.के.कोठारी, सचिव महोदय एवं हमारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ मंच पर विराजमान थे। इस अवसर पर माझगांव डॉक लिमिटेड के निदेशक-समवाय आयोजना एवं कार्मिक, कोमोडोर राकेश आनंद, बीपीसीएल के निदेशक-मानव संसाधन, श्रीकांत पी. गट्टू, एनपीसीआईएल के निदेशक-मानव संसाधन, श्री नलिनीश नागाइच, एनएफडीसी की निदेशक-वित्त, सुश्री नजहत शेख, आरसीएफ के निदेशक-तकनीकी, श्री ब्रिटो एवं सदस्य कार्यालयों के अनेकानेक कार्यकारी निदेशक, मुख्य कार्यपालक सहित राजभाषा विभाग-पश्चिम क्षेत्र के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री विनोद कुमार शर्मा, हिन्दी शिक्षण योजना और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के पदाधिकारियों सहित कुल 170 से भी ज्यादा प्रतिभागी उपस्थित थे। बैठक में नराकास की गतिविधियों एवं आरसीएफ के कार्यकलापों की एक सुंदर प्रदर्शनी भी लगाई गयी थी।



मुंबई (उपक्रम) नराकास-सचिव, श्री राम विचार यादव ने नराकास की 56वीं बैठक में उपस्थित सभी का स्वागत किया और नराकास की गतिविधियों, टॉलिक विजन, नराकास वेबसाइट एवं 1983 से अब तक एचपीसीएल द्वारा नराकास के तत्वावधान में आयोजित गतिविधियों का सुंदर प्रस्तुतीकरण किया। इस अवसर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के

रूप में कार्यकारी निदेशक-आरसीएफ ने भी आरसीएफ की गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया। उप

निदेशक-कार्यान्वयन (पश्चिम) श्री विनोद कुमार शर्मा ने सदस्य कार्यालयों की तिमाही प्रगति की समीक्षा की।

तत्पश्चात, नराकास की गृह पत्रिका “नराकास समाचार” का विमोचन सचिव-राजभाषा, श्री गिरीश शंकर (आईएस) और अध्यक्ष-नराकास, सुश्री निशि वासुदेवा के करकमलों से संपन्न हुआ। श्री राम विचार यादव के संपादन एवं श्री अशोककुमार कनोजिया तथा श्री सलीम खान के सहयोग से प्रकाशित “नराकास समाचार” के लिए सचिव महोदय ने श्री अशोककुमार कनोजिया तथा श्री सलीम खान को पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया।



बैठक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक एवं कार्यकारी सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री रजनीश नारंग, एनपीसीआईएल के निदेशक-मानव संसाधन, श्री नलिनीश नागाइच और गेल (इंडिया) लिमिटेड के आंचलिक-महाप्रबंधक, श्री आर.सी.अरोड़ा को नराकास के तत्वावधान में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सचिव महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।



नराकास को अपने उल्लेखनीय योगदान से नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-एससीआई, श्री अरूण कुमार गुप्ता को सचिव महोदय तथा अध्यक्ष-नराकास द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्री गुप्ता एससीआई की सेवा से 31 दिसम्बर, 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गुप्ता ने अध्यक्ष महोदय को “सीईओ ऑफ दी ईयर” पुरस्कार के लिए बधाई दी तथा नराकास में उनके नेतृत्व के लिए उनकी सराहना की।

आरसीएफ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.जी.राजन ने नराकास के सदस्य-सचिव, श्री राम विचार यादव की सराहना करते हुए सचिव-राजभाषा, भारत सरकार से अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि कदाचित, मुंबई (उपक्रम) नराकास भारत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नराकास होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुश्री निशि वासुदेवा के नेतृत्व में मुंबई (उपक्रम) टॉलिक बेहतरीन कार्य कर रही है।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सुश्री निशि वासुदेवा ने सचिव महोदय को बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए धन्यवाद दिया तथा सदस्य उपक्रमों से अनुरोध किया कि वे संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इसे व्यावसायिक भाषा बनाने का प्रयास करें। उन्होंने संयुक्त सचिव-राजभाषा, भारत सरकार, श्रीमती पूनम जूनेजा की अध्यक्षता में आगरा में आयोजित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी जिक्र किया।



मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव-राजभाषा, भारत सरकार, श्री गिरीश शंकर (आईएएस) ने कहा कि जब प्रेरणा और प्रोत्साहन उच्चतम अधिकारियों की ओर से आता है तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है और यह बात मुंबई (उपक्रम) नराकास की बैठक में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। उन्होंने सदस्य-सचिव, श्री राम विचार यादव के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि जिन संस्थानों में कम काम हो रहा है उनको साथ लेकर नवोन्मेषी उपायों जैसे एसएमएस, वाट्स न्यू इत्यादि के माध्यम से उन संस्थानों को भी ऊपर लाने का प्रयास करें। हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने आदर्श राजभाषा कार्यालय की संकल्पना की प्रशंसा करते हुए हमारे जयपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय का खास तौर पर उल्लेख किया।



सचिव-राजभाषा की विशेष उपस्थिति में आयोजित नराकास की यह 56वीं बैठक हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित होगी तथा सदस्य उपक्रमों के बीच एचपीसीएल की छवि को और निखारेगी। बैठक के आयोजन में टीम राजभाषा-मुंबई एवं डॉ. ईश्वर सिंह का योगदान रहा।



एचपीसीएल टीम राजभाषा- सचिव एवं सदस्य कार्यालयों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ
